



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 158]
No. 158]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 1978/श्रावण 13, 1900
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 1978/SRAVANA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय
(प्राधिकार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1978

डाकघर बचत बैंक इनामी प्रोत्साहन योजना—29 जुलाई, 1978 को रविन्द्र आडिटोरियम, जयपुर में निकाले गए नवे ड्रा के परिणाम सञ्चय-एक-2(22) एम० एस०/78—डाकघर बचत बैंक इनामी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ओ दिनांक 16 अक्टूबर, 1973 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एक 3(11) एम० एस०/72 द्वारा प्रकाशित की गई थी और जिसमें बाद में पहली नवम्बर, 1973, पहली फरवरी, 1974, पहली जनवरी, 1975, 10 अप्रैल, 1975 और 14 मार्च, 1977 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था रविन्द्र आडिटोरियम, जयपुर में 29 जुलाई, 1978 को निकाले गए नवे ड्रा के नतीजे नीचे दिए गए हैं :—

इनाम	अखिल भारतीय कोड नम्बर	डाकघर बचत बैंक खाता संख्या	डाकघर प्रधान डाकघर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पहला इनाम—(1,00,000 रुपये)				
4205800	280371	मण्डी		हिमाचल प्रदेश
दूसरा इनाम—पाँच (प्रत्येक 50,000 रुपये)				
1. 2194810	106925	जाजपुर		उड़ीसा
2. 4824109	1535121	बरिया		उत्तर प्रदेश
3. 2200364	680287	बारीपाड़ा		उड़ीसा
4. 6117614	580411	गोरखपुर		उत्तर प्रदेश
5. 2754549	326410	रायपुर		मध्य प्रदेश

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तीसरा इनाम—दस (प्रत्येक 20,000 रुपये)				
1. 6316909	703168	शलीबाग		महाराष्ट्र
2. 1005313	3399602	बोरीबली		महाराष्ट्र
3. 1263771	186181	भालीबाग		महाराष्ट्र
4. 3348639	297519	भूसवाल		महाराष्ट्र
5. 4836895	118906	कटक		उड़ीसा
6. 1199565	178440	बलसाद		गुजरात
7. 3634898	4020126	बाकीपुर		बिहार
8. 6774094	215285	डूंगरपुर		राजस्थान
9. 4482204	4354298	रमेश नगर, नई दिल्ली		दिल्ली
10. 6087880	107241	मथुरा		उत्तर प्रदेश
चौथा इनाम—सौ प्रत्येक (5,000 रुपये)				
1. 6227882	888126	खेरानाबाद		ग्राम्भ प्रदेश
2. 1651895	3180116	पारनेश्वर		महाराष्ट्र
3. 5328576	825712	जानोबजई छपरा		बिहार
4. 4092094	2440007	इलाहाबाद		उत्तर प्रदेश
5. 4579802	569218	बाराणसी		उत्तर प्रदेश
6. 1696407	212015	मुरावाबाद		उत्तर प्रदेश
7. 3378520	932522	रुड़की		उत्तर प्रदेश
8. 4400987	778495	कमला नगर (दिल्ली जी०पी०ओ०)		दिल्ली
9. 1196612	605152	बलसाद		गुजरात
10. 4783410	719714	शिवसागर		असम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
11. 5656579	793359	तेजपुर	असम		60. 1736275	574547	विशाखापत्तनम	आन्ध्र प्रदेश	
12. 6794052	1019341	बहरामपुर	पश्चिम बंगाल		61. 3787323	5950578	सरोजनी नगर, नई दिल्ली	दिल्ली	
13. 5009267	600721	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश		62. 4895935	551052	बस्ती	उत्तर प्रदेश	
14. 4761064	219213	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश		63. 2570853	501830	पोरबन्दर	गुजरात	
15. 3194553	274859	कनतई	पश्चिम बंगाल		64. 3342621	595211	बर्दवान	पश्चिम बंगाल	
16. 2249800	1500657	मेहसाना	गुजरात		65. 2180152	288427	जलपाइगुड़ी	पश्चिम बंगाल	
17. 5012076	240183	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश		66. 3419729	482316	भूरी	पश्चिम बंगाल	
18. 3625801	730663	पटना	बिहार		67. 4086932	2521819	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	
		(सचिवालय) (बांकीपुर)			68. 2478453	1280948	बिस्सोमोरिया	गुजरात	
19. 1165191	507993	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश		69. 4831228	600851	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	
20. 3368378	438297	बारामुल्ला	जम्मू और कश्मीर		70. 4539906	96802	धन्वाला	हरियाणा	
21. 5879862	155684	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र		71. 5418393	1615283	कुल्लु	हिमाचल प्रदेश	
22. 6689680	867911	करनाल	हरियाणा		72. 6797765	427851	चिनसुरा	पश्चिम बंगाल	
23. 4111308	80177	पोर्टब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		73. 4589955	489475	बाराणसी	उत्तर प्रदेश	
24. 6500141	3123917	रूपनगर	पंजाब		74. 3068250	1050233	कामारोही	आन्ध्र प्रदेश	
25. 5021158	980263	बारपेटा	असम		75. 4452152	411039	विजनीर	उत्तर प्रदेश	
26. 6542981	515812	अम्बाला सिटी	हरियाणा		76. 6623298	5051857	गुमला	बिहार	
27. 4905528	61060	बस्ती	उत्तर प्रदेश		77. 3827047	117019	मोतीहारी	बिहार	
28. 4063259	819946	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश		78. 3432592	720530	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	
29. 4703339	1222247	मऊनाथ भंजन	उत्तर प्रदेश		79. 5486264	385390	भुसावल	महाराष्ट्र	
30. 5685729	647188	मालवात्म	महाराष्ट्र		80. 3796561	2072698	सिलचर	असम	
31. 4041191	518804	जालन्धर कैण्ट	पंजाब		81. 1625582	723334	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	
32. 2194042	206269	जाजपुर	उड़ीसा		82. 6115924	159266	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश	
33. 4210335	6000062	मण्डी	हिमाचल प्रदेश		83. 5777638	1591079	रांची	बिहार	
34. 1106423	445371	मैतीताल	उत्तर प्रदेश		84. 3397420	352881	अस्सलपुर	केरल	
35. 6338611	122731	समस्तीपुर	बिहार		85. 3139491	416941	हिसार	हरियाणा	
36. 6470264	620815	पांडिचेरी	पांडिचेरी		86. 4738140	53353	अकोला	महाराष्ट्र	
37. 4488711	4994347	रमेश नगर	दिल्ली		87. 4505498	652352	बिहारखोफ	बिहार	
38. 6402291	1830248	अंबुगल	केरल		88. 6438640	70468	नगरक्वायल	तमिलनाडु	
39. 5432285	742401	अकबरपुर	उत्तर प्रदेश		89. 5871271	840103	पौड़ी (गढ़वाल)	उत्तर प्रदेश	
40. 2456410	808275	सैस हाऊन	उत्तर प्रदेश		90. 4377497	550268	ऊरई	उत्तर प्रदेश	
41. 1977483	950229	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश		91. 2334207	1191697	व्यावर	राजस्थान	
42. 6657918	2500097	मांझला	मध्य प्रदेश		92. 6489717	190570	पयनायिता	केरल	
43. 2367039	2190428	अहमदाबाद	गुजरात		93. 6477652	3862896	सतारा	महाराष्ट्र	
44. 2271969	162464	पिथौरागढ़	उत्तर प्रदेश		94. 3632040	572626	बांकीपुर	बिहार	
45. 6219683	467283	अण्डीगढ़	अण्डीगढ़		95. 2353326	286920	बड़ा बाजार (कलकत्ता)	पश्चिम बंगाल	
46. 4221048	432099	रतनागिरी	महाराष्ट्र		96. 3189957	542076	कनतई	पश्चिम बंगाल	
47. 3297614	817829	पार्क स्ट्रीट (कलकत्ता)	पश्चिम बंगाल		97. 1666906	615390	रोवा	मध्य प्रदेश	
48. 2111366	1170162	बलघासिया	पश्चिम बंगाल		98. 3065550	1600428	मोपाल सेंट्रल	मध्य प्रदेश	
49. 6400782	246340	कलूर	तमिलनाडु		99. 4973650	142761	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	
50. 3800162	55751425	सिलचर	असम		100. 4817098	570809	बलिया	उत्तर प्रदेश	
51. 3473924	543078	सतारा	महाराष्ट्र		पाँचवाँ इनाम — एक हजार (प्रत्येक 500 रुपये के) :				
52. 6646578	656599	उन्नाव	उत्तर प्रदेश		अखिल भारतीय कोड नम्बर वाले सभी खाते जिनके खातों में नीचे				
53. 3183996	152303	रामपुर	उत्तर प्रदेश		दिये गये अंक खाते हैं :—				
54. 2995705	789316	बरसात	उत्तर प्रदेश		9530 अथवा 6555 अथवा 1521				
55. 4880819	947843	चिनसुरा	पश्चिम बंगाल		छठा इनाम—दस हजार (प्रत्येक 50-50 रुपये के) :				
56. 2409887	121335	करीमगंज	असम		अखिल भारतीय कोड नम्बर वाले सभी खाते जिनके खातों में नीचे				
57. 3894252	366879	हावड़ा	पश्चिम बंगाल		दिये गये अंक खाते हैं :—				
58. 2485460	845958	बैद्य नाथ देवघर	बिहार		196 अथवा 153 अथवा 247				
59. 2160931	1750311	भारदोली	गुजरात		इनामों की संख्या इसके पास पास हो सकती है ।				
					के० एन० राव, संयुक्त सचिव				

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, 3rd, August, 1978

POST OFFICE SAVINGS BANK'S PRIZE INCENTIVE SCHEME—RESULT OF THE NINTH DRAW HELD ON 29th JULY, 1978 AT RAVINDRA AUDITORIUM, JAIPUR.

No. F. 2(22)-NS/78 :—Following are the results of the Ninth Draw for award of prizes under the Post Office Savings Bank's Prize Incentive Scheme notified in the Government of India Gazette Notification No. F. 3 (11)-NS/72 dated 16th October, 1973, as amended by subsequent notification No. dated 1st. November, 1973, 1st. February, 1974, 1st. January, 1975, 10th. April, 1975 and 14th March, 1977, held on 29th. July, 1978 at Ravindra Auditorium, Jaipur.

Prize	All India Code Number	Post Office Savings Bank Account Number	Post Office/Head Post Office	State/Union Territory.
1	2	3	4	5

First Prize (Rs. 1,00,000).

4205800 280374 Mandi Himachal Pradesh.

FIVE SECOND PRIZES (Rs. 50,000 each).

1. 2194810 106925 Jajpur Orissa.
 2. 4824109 1535121 Ballia U.P.
 3. 2200364 680287 Baripada Orissa.
 4. 6117614 580411 Gorakhpur U.P.
 5. 2754549 326410 Raipur M.P.

TEN THIRD PRIZES (Rs. 20,000 each).

1. 6316909 703168 Alibagh Maharashtra.
 2. 1005313 3399602 Borivili Maharashtra.
 3. 1263771 186181 Alibagh Maharashtra.
 4. 3348639 297519 Bhusawal Maharashtra.
 5. 4836895 118906 Cuttack Orissa.
 6. 1199565 178440 Valsad Gujarat.
 7. 3634898 1020126 Bankipur Bihar.
 8. 6774094 215285 Dungarpur Rajasthan.
 9. 4482204 4354298 Ramesh Nagar, New Delhi Delhi.
 10. 6087880 107241 Mathura U.P.

100 FOURTH PRIZES (Rs. 5,000 each).

1. 6227882 808126 Khairatabad Andhra Pradesh.
 2. 1651895 3180116 Parleshwar Maharashtra.
 3. 5328576 825712 Jano Bajal Chapra Bihar.
 4. 4092094 2440007 Allahabad U.P.
 5. 4579802 569218 Varanasi U.P.
 6. 1696407 212015 Moradabad U.P.
 7. 3378520 932522 Roorkee U.P.
 8. 4400987 778495 Kamla Nagar (Delhi GPO). Delhi.

1	2	3	4	5
9.	1196612	605152	Valsad	Gujarat.
10.	4783410	719714	Sibsagar	Assam.
11.	5656579	793359	Tezpur	Assam.
12.	6794052	1019341	Behrampur	W. Bengal.
13.	5009267	600721	Barabanki	U.P.
14.	5761064	219213	Mirzapur	U.P.
15.	3194553	274859	Contai	W.B.
16.	2249800	1500657	Mehsana	Gujarat.
17.	5012076	240183	Brabanki	U.P.
18.	3625801	730663	Patna Sectt. (Bankipur).	Bihar.
19.	1165191	507993	Dharamshala	Himachal Pradesh.
20.	3368378	438297	Baraumulla	J & K
21.	5879862	155684	Chandrapur	Maharashtra.
22.	6689680	867911	Karnal	Haryana.
23.	4111308	80177	Port Blair	A. & N. Islands.
24.	6500141	3123917	Rupnagar	Punjab.
25.	5021158	980263	Barpeta	Assam.
26.	6542981	515812	Ambala City	Haryana.
27.	4905528	61060	Basti	U.P.
28.	4063259	819946	Allahabad	U.P.
29.	4703339	1222247	Maunath Bhanjan	U.P.
30.	5685729	647188	Malvan	Maharashtra.
31.	4041191	518804	Jullundur Cantt.	Punjab.
32.	2194042	206269	Jajpur	Orissa.
33.	4210335	6000062	Mandi	Himachal Pradesh.
34.	1106423	445371	Nainital	U.P.
35.	6338611	122731	Samastipur	Bihar.
36.	6470264	620815	Pondicherry	Pondicherry.
37.	4488711	4994347	Ramesh Nagar	Delhi.
38.	6402291	1830248	Attungal	Kerala.
39.	5432285	742401	Akbarpur	U.P.
40.	2456410	808275	Landsomum	U.P.
41.	1977483	950229	Hoshangabad	M.P.
42.	6657918	2500097	Mandla	M.P.
43.	2367039	2190428	Ahmedabad	Gujarat.
44.	2271969	162464	Pithoragarh	U.P.
45.	6219683	467283	Chandigarh	Chandigarh.
46.	4221048	432099	Ratnagiri	Maharashtra.
47.	3297614	817829	Park Street (Calcutta)	W. Bengal.
48.	2111366	1170162	Balgharia	W. Bengal.
49.	6400782	246340	Karur	T. Nadu.
50.	3800162	55751425	Silchar	Assam.
51.	3473924	543078	Satara	Maharashtra.
52.	6646578	656599	Unnao	U.P.
53.	3183996	152303	Rampur	U.P.
54.	2995705	789316	Barasat	W.B.
55.	4880819	947848	Chinsura	W. Bengal.
56.	2409887	121335	Karimganj	Assam.
57.	3694252	366879	Howrah	W.B.
58.	2485460	845958	B. Deogarh	Bihar.
59.	2160931	1750311	Bardoli	Gujarat.
60.	1736275	574547	Visakha-patnam	A.P.
61.	3787323	5950578	Sarojini Nagar, New Delhi	Delhi.
62.	4895935	551052	Basti.	U.P.

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
63.	2570853	501830	Porbandar	Gujarat.	90.	4377497	550268	Orai	U.P.
64.	3342621	595211	Burdwan	W.B.	91.	2334207	1191697	Beawar	Rajasthan.
65.	2180152	288427	Jalpaiguri	W.B.	92.	6489717	190570	Pathnamthit- ta.	Kerala
66.	3419729	482316	Suri	W.B.	93.	6477652	3862876	Satara	Maharashtra.
67.	4086932	2521819	Allahabad	U.P.	94.	3632040	571626	Bunkipur	Bihar
68.	2478453	1280948	Billimoria	Gujarat.	95.	2353326	286920	Bara Bazar (Calcutta)	W.B.
69.	4831228	600851	Aurangabad	Maharashtra.	96.	3189957	542076	Contai	West Bengal.
70.	4539906	96802	Ambala	Haryana.	97.	1666906	615390	Rewa	M.P.
71.	5418394	1615283	Kulu	Himachal Pradesh.	98.	3065550	1600428	Bhopal Central	M.P.
72.	6797765	427851	Chinsura	W.B.	99.	4973650	142761	Unnao	U.P.
73.	4589955	489475	Varanasi	U.P.	100.	4817098	570809	Ballia	U.P.
74.	3060250	1050233	Kamareddy	A.P.	* ONE THOUSAND FIFTH PRIZES (Rs. 500 each). All accounts having All India Code Numbers ending with : 9530 OR 6555 OR 1521.				
75.	4452152	411039	Bijnor	U.P.					
76.	6623298	5051857	Gumla	Bihar.	* TEN THOUSAND SIXTH PRIZES (Rs. 50 each). All accounts having All India Code Numbers ending with : 196 OR 153 OR 247				
77.	3827047	117019	Motihari	Bihar.					
78.	3432592	720530	Calcutta GPO	W.B.	*The number of prizes shown is approximate. K. N. ROW, Joint Secy.				
79.	5486264	385390	Bhusawal	Maharashtra.					
80.	3796561	2072698	Silchar	Assam.					
81.	1625582	723334	Midnapore	W.B.					
82.	6115924	159266	Hamirpur	U.P.					
83.	5777638	1591079	Ranchi	Bihar.					
84.	3397420	352881	Allatur	Kerala.					
85.	3139491	416941	Hissar	Haryana.					
86.	4738140	53353	Akola	Maharashtra.					
87.	4505498	652352	Biharsharif	Bihar.					
88.	6438640	70468	Nagarcoil.	T. Nadu.					
89.	5871271	840103	Pauri (Garhwal).	U.P.					